



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1430]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 19, 2007/कार्तिक 28, 1929

No. 1430]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 19, 2007/KARTIKA 28, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2007

का.आ. 1962(अ).—यतः महाराष्ट्र राज्य में मै. डायनेस्टी डिवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को महाराष्ट्र राज्य में प्लॉट सं. 3, राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, हिन्जेवाडी, फेज-II, गाँव मरूजी, तालुका मुल्शी, जिला-पुणे में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है;

और यतः केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उक्त मरूजी गाँव में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रख-रखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 5 जून, 2007 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य में प्लॉट सं. 3, राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, हिन्जेवाडी, फेज-II, गाँव मरूजी, तालुका मुल्शी, जिला-पुणे में निम्नलिखित क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित सर्वेक्षण संख्याएँ और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :—

4679 GI/2007

(1)

तालिका

| क्र. सं. | गाँव का नाम | सर्वेक्षण सं. | क्षेत्र (हेक्टेयर में) |
|----------|-------------|---------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | मरूजी | 53/2 भाग | 2.02 |
| 2. | | 54/1 भाग | 0.36 |
| 3. | | 54/2 भाग | 1.24 |
| 4. | | 54/3 | 0.14 |
| 5. | | 54/4 | 0.17 |
| 6. | | 54/5 भाग | 0.60 |
| 7. | | 54/6 भाग | 0.11 |
| 8. | | 54/7 | 0.51 |
| 9. | | 55/17 भाग | 0.69 |
| 10. | | 55/19 | 0.45 |
| 11. | | 55/20 | 1.25 |
| 12. | | 55/21 | 0.41 |
| 13. | | 55/22 | 0.85 |
| 14. | | 55/23पी | 3.16 |
| 15. | | 55/24 भाग | 0.33 |
| 16. | | 55/25 भाग | 0.40 |
| 17. | | 55/26 | 1.07 |
| 18. | | 55/27 | 0.78 |
| 19. | | 55/28ए | 0.28 |
| 20. | | 55/28बी | 0.45 |
| 21. | | 55/29 | 0.65 |
| 22. | | 55/30 | 0.72 |
| 23. | | 55/31 | 0.48 |
| कुल : | | | 17.12 हेक्टेयर |

[फा. सं. एफ-2/635/2006-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2007.

S.O. 1962 (E).—Whereas M/s. Dynasty Developers Private Limited in the State of Maharashtra, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector-specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Plot No. 3, Rajiv Gandhi Infotech Park, Hinjewadi, Phase-II, Village Marunji, Taluka Mulshi, District Pune in the State of Maharashtra;

And whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the sector-specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Marunji Village area on the 25th June, 2007;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the following area at Plot No. 3, Rajiv Gandhi Infotech Park, Hinjewadi, Phase II, Village Marunji, Taluka Mulshi, District Pune in the State of Maharashtra, comprising of the survey numbers and the area given below in the Table, as a Special Economic Zone namely :—

| TABLE | | | |
|---------------|---------------------|------------|-----------------------|
| Sl. No. | Name of the village | Survey No. | Area (in hectares) |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Marunji | 53/2 PT | 2.02 |
| 2. | | 54/1 PT | 0.36 |
| 3. | | 54/2 PT | 1.24 |
| 4. | | 54/3 | 0.14 |
| 5. | | 54/4 | 0.17 |
| 6. | | 54/5 PT | 0.60 |
| 7. | | 54/6 PT | 0.11 |
| 8. | | 54/7 | 0.51 |
| 9. | | 55/17 PT | 0.69 |
| 10. | | 55/19 | 0.45 |
| 11. | | 55/20 | 1.25 |
| 12. | | 55/21 | 0.41 |
| 13. | | 55/22 | 0.85 |
| 14. | | 55/23P | 3.16 |
| 15. | | 55/24 PT | 0.33 |
| 16. | | 55/25 PT | 0.40 |
| 17. | | 55/26 | 1.07 |
| 18. | | 55/27 | 0.78 |
| 19. | | 55/28A | 0.28 |
| 20. | | 55/28B | 0.45 |
| 21. | | 55/29 | 0.65 |
| 22. | | 55/30 | 0.72 |
| 23. | | 55/31 | 0.48 |
| TOTAL: | | | 17.12 hectares |

[F.No. F. 2/635/2006-SEZ]
ANIL MUKIM, Jt. Secy.